

444
10/1/18

प्रेषक,

संख्या / xxxi(15)G/(बी-02) / 2015

कवीन्द्र सिंह,
संयुक्त सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
पौड़ी गढ़वाल।

सामान्य प्रशासन विभाग

देहरादून दिनांक 02 जनवरी, 2018

विषय- वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए प्रथम अनुपूरक अनुदानों की स्वीकृति।
महोदय,

उपरोक्त विषयक के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कार्यालय निरीक्षणालय पौड़ी गढ़वाल हेतु वित्तीय वर्ष, 2017-18 के लिए प्रथम अनुपूरक अनुदान हेतु अधिष्ठान मद की सुसंगत मदों में स्वीकृत बजट प्राविधानित कुल ₹6,00,000.00 (रुपये छः लाख मात्र) की धनराशि को संलग्न अलोटमेंट आईडी H1801070067 दिनांक 02 जनवरी, 2018 में दिये गये विवरण के अनुसार आपके निर्वतन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- उपर्युक्त स्वीकृति के सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत शासनादेशों एवं उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 का अनुपालन करते हुए मित्तव्ययता की जायेगी।

3- उपरोक्त आवंटन वित्त अनुभाग-1, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या-1362/3(150)/xxvii(1)/2017, दिनांक 27 दिसम्बर, 2017 में निहित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन होगा।

4- उपर्युक्त मद में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष, 2017-18 के अनुदान संख्या-7 के लेखाशीर्षक-2052-सचिवालय सामान्य सेवायें-00-आयोजनेत्तर-091-संलग्न कार्यालय-07-कार्यालय निरीक्षणालय का अधिष्ठान, की सुसंगत मदों के अन्तर्गत आहरित किया जायेगा।
संलग्नक:-यथोपरि।

भवदीय,

(कवीन्द्र सिंह)
संयुक्त सचिव

संख्या 13 / xxxi(15)G/(बी-02) / 2015 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार, उत्तराखण्ड, ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, माजरा देहरादून।
- 2- निदेशक, कोषागार, उत्तराखण्ड।
- 3- वित्त अधिकारी, केन्द्रीय भुगतान एवं लेखा कार्यालय, 23 लक्ष्मी रोड़, देहरादून।
- 4- मुख्य कोषाधिकारी, पौड़ी गढ़वाल।
- 5- वित्त अनुभाग-1/5, उत्तराखण्ड शासन।
- 6- गार्ड फाईल।

(कवीन्द्र सिंह)
संयुक्त सचिव

बजट आवंटन वित्तीय वर्ष - 20172018

HOD, GAD/Census (9019)

आवंटन पत्र संख्या - 11/xxxi(15)G/2018

अनुदान संख्या - 007

अलॉटमेंट आई डी - H1801070067

आवंटन पत्र दिनांक - 02-Jan-2018

DDO Name - District Magistrate Pauri (4217) , Treasury - Garhwal (4200)

1: लेखा शीर्षक 2052 - सचिवालय-सामान्य सेवासें 00 -
091 - संलग्न कार्यालय
07 - कार्यालय निरीक्षणालय
00 - कार्यालय निरीक्षणालय

मानक मद का नाम	पद में जारी	वर्तमान में जारी	Voted
			योग
01 - वेतन	2150000	250000	2400000
03 - महंगाई भत्ता	120000	200000	320000
04 - यात्रा खर्च	9000	0	9000
05 - स्थानांतरण यात्रा खर्च	2000	0	2000
06 - अन्य भत्ते	145000	150000	295000
08 - कार्यालय खर्च	9000	0	9000
11 - लेखन सामग्री और फार्मों की छ	5000	0	5000
17 - किराया, उपश्रमक और कर-स्वा	1000	0	1000
27 - चिकित्सा खर्च प्रतिवर्ष	2000	0	2000
44 - प्रशिक्षण खर्च	10000	0	10000
47 - कम्प्यूटर अंतराधान/तत्सम्बन्धी	10000	0	10000
	2463000	600000	3063000

Total Current Allotment To DDO In Above Schemes -

600000

[Handwritten Signature]